

जन संपर्क एवं मीडिया समन्वयक कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

22 अप्रैल 2019

विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर जामिया मिल्लिया की कुलपति ने वातावरण को संरक्षित रखने की कर्मचारियों को शपथ दिलाई

विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय के शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ को शपथ दिलाई कि वे बिजली, पानी और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बचा कर पर्यावरण का संरक्षण करेंगे।

उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कर्मचारी पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझें और अक्षय ऊर्जा का उपयोग करने की दिशा में कदम उठाएं। साथ ही बारिश के पानी को व्यर्थ नहीं जाने देने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग का अधिक से अधिक प्रयास करें।

कर्मचारियों से उन्होंने कहा कि इस शपथ को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं लें बल्कि पर्यावरण को बचाने के उपायों को अपने रोज़ मर्रा के जीवन का हिस्सा बनाएं।

श्रीलंका में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों पर बड़ी तादाद में लोगों के मारे जाने पर दुख जताते हुए कुलपति और कर्मचारियों ने दो मिनट का मौन रखा। प्रो अख्तर ने यह भी कहा कि एक संस्था के रूप में जामिया और व्यक्तिगत रूप से उसके कर्मचारियों को चाहिए कि वे देश को सुरक्षित बनाने के लिए जागरूकता और सतर्कता फैलाने के प्रयासों को बढ़ावा दें।

विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शपथ समारोह के अलावा जामिया के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के एडवांस पावर इलेक्ट्रानिक्स रिसर्च लैब में एक जागरूकता संवाद का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर नवीण एवं अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में सलाहकार डा सुहेल अख्तर ने उपस्थित लोगों को “ भारत में अक्षय ऊर्जा का भविष्य “ विषय पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के पर्यावरण के संरक्षण और भारत के चहुंमुखी विकास के लिए अक्षय ऊर्जा कितनी अधिक महत्वपूर्ण है।

अहमद अज़ीम

जनसंपर्क अधिकारी एवं मीडिया संयोजक